



मानव तस्करी और दासता

मानव तस्करी और दासता ऑस्ट्रेलिया में गंभीर अपराध हैं।

मानव तस्करी और दासता गैर-कानूनी है।

इन अपराधों को करने वाले व्यक्ति को जेल हो सकती है, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या महिला।

यदि आपको या आपके किसी जानकार को खतरा है तो पुलिस को **000** पर फोन करें।

ऑस्ट्रेलिया की पुलिस सुरक्षित है और इस पर भरोसा किया जा सकता है।

यदि आपको एक निःशुल्क दुभाषिए की ज़रूरत है तो **131 450** पर फोन करें।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार (Australian Government) किसी भी परिस्थिति में मानव तस्करी या आधुनिक दासता को बर्दाश्त नहीं करती है।

मानव तस्करी और दासता उस परिस्थिति में घटित हो सकती है जब लोगों को किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए शोषक परिस्थितियों में जबरन डाला जाता है। ऐसा पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ हो सकता है। मानव तस्करी और दासता में शामिल हैं:

- हॉस्पिटेलिटी, निर्माण-कार्य, वन-विज्ञान, माइनिंग (खनन) या कृषि जैसे उद्योगों, तथा साथ ही अंतरंग संबंधों में दासता, गुलामी या जबरन श्रम कराना;
- ऋण बंधन;
- यौन शोषण;
- जबरन विवाह; या
- अंग निकालने के प्रयोजन के लिए तस्करी।

मानव तस्करी और दासता अप्रत्यक्ष अपराध होते हैं।

मानव तस्करी और दासता ऐसे अपराध हैं जिनका पता लगाना कठिन हो सकता है। हो सकता है कि लोग मदद माँगने की कोशिश न करें क्योंकि उन्हें अपने शोषकों से बदला लेने का या अपनी प्रवास स्थिति को खोने का भय हो।

वे संकेत जो यह दर्शाते हों कि किसी व्यक्ति की तस्करी की जा रही है, उनमें ऐसी परिस्थितियाँ शामिल हो सकती हैं जहाँ व्यक्ति से:

- छलकपट करके, उसे भयभीत कराके या जबरन उससे काम कराया जा रहा हो;
- उसे काम की खराब परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जा रही हों;
- उसे वेतन न दिया जा रहा हो या ऐसा प्रतीत हो कि वह अपने नियोक्ता या किसी तृतीय पक्ष को बड़े ऋण का भुगतान कर रहा है; या
- उसका पासपोर्ट या अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज़ किसी तृतीय पक्ष ने अपने पास रखे हों, और वह जब चाहे इन दस्तावेज़ों तक पहुँच प्राप्त न कर सकता हो।

क्या आपको, या आपके किसी जानकार को खतरा है?

यदि आपके या आपके किसी जानकार के साथ मानव तस्करी या दासता की जा रही हो, या इसका खतरा हो, तो आप सहायता के लिए **ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (Australian Federal Police – 131 237)** से पर संपर्क कर सकते/सकती हैं या **AFP की वेबसाइट www.afp.gov.au** पर जा सकते/सकती हैं। AFP आपको सुरक्षित रख सकती है, सलाह दे सकती है और समर्थन के लिए आपको अन्य सेवाओं को रेफर कर सकती है, जैसे कि आवास, वित्तीय समर्थन, सलाह और कानूनी एवं आप्रवास सलाह।

तस्करी किए गए लोगों के लिए सहायता कार्यक्रम (Support for Trafficked People Program) को सरकार द्वारा वित्त-पोषण प्राप्त है और इसे ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस (Australian Red Cross) द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि उन लोगों को सहायता प्रदान की जा सके जो मानव तस्करी या दासता के शिकार हैं।

ऑस्ट्रेलिया में ऐसी अन्य सेवाएँ हैं जो सहायता कर सकती हैं।

1800RESPECT ऑस्ट्रेलिया की यौन उत्पीड़न, पारिवारिक और घरेलू हिंसा परामर्शी सेवा है। यह निःशुल्क, गोपनीय टेलीफोन और ऑनलाइन सलाह एवं सूचना प्रदान करती है। सलाहकार आपकी बात सुनेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और वे आपको आपके स्थानीय क्षेत्र में अन्य समर्थन सेवाओं को रेफर कर सकते/सकती हैं।

1800 737 732 पर फोन करें या **www.1800RESPECT.org.au** पर **1800RESPECT वेबसाइट** देखें।

क्या आपको दुभाषिए की ज़रूरत है?

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service - TIS) को **131 450** पर फोन करें। TIS का दुभाषिया आपको अन्य सेवाओं के साथ संचार करने में मदद दे सकता है, परन्तु TIS परामर्शी सेवा प्रदान नहीं करती है। सभी कॉल्स निःशुल्क और गोपनीय होती हैं।

ऑस्ट्रेलिया में मानव तस्करी और दासता से सम्बन्धित अधिक जानकारी:

तस्करी किए गए लोगों के लिए सहायता कार्यक्रम (Support for Trafficked People Program) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सामाजिक सेवा विभाग () की वेबसाइट **www.dss.gov.au** या ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस (Australian Red Cross) की वेबसाइट **www.redcross.org.au** देखें। आप ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस (Australian Red Cross) को **national_stpp@redcross.org.au** पर ई-मेल भी भेज सकते/सकती हैं।

मानव तस्करी और दासता से सम्बन्धित और अधिक जानकारी के लिए, गृह मामल विभाग (Department of Home Affairs) की वेबसाइट **www.homeaffairs.gov.au** या ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (Australian Federal Police) की वेबसाइट **www.afp.gov.au** पर जाएँ और "मानव तस्करी (human trafficking)" सर्च करें।